

DAV PUBLIC SCHOOL, NTPC, RIHANDNAGAR
Home work For Summer vacation (2018 – 19)
CLASS – V A2

Subject:- English

Lesson - Monday Morning Blues

A Tale of a tail

Learn by heart all the question-answers & the exercise given at the back of both the lessons.

Unit - I (Nouns)

Make a chart of Abstract Noun with 30 words.

Write the paragraphs on the following topics-

- 1) Our best friend
- 2) Scene at a railway station
- 3) A Book you have read
- 4) Write a leave application to the principal of your school for three days' leave.

Book suggested to read - stories of R.K . Narayan

Subject:- Hindi

- (1) 'मुँह' से जुड़े पाँच मुहावरे ढूँढकर स्क्रेप बुक में लिखिए तथा उचित भाव को प्रकट करने वाले चेहरे भी बनाइए या चिपकाइए ।
- (2) सरदार पटेल की तरह किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी जैसे - महात्मा गाँधी , लक्ष्मीबाई, भगत सिंह , चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानकारी इकट्ठी करने स्क्रेप बुक में लिखिए तथा उनका चित्र भी चिपकाइए।
- (3) अलग- अलग तरह के पेड़ों के चित्र चिपकाइए तथा उनके नाम लिखिए या पत्तों को सुखाकर चिपकाइए।
- (4) कहानियों की किताबें पढ़िए ।
- (5) चार्ट पर पेड़ का चित्र बनाइए तथा तथा उनसे मिलने वाली सीख ' परोपकार करो' को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए।

Subject:- Sanskrit

प्रश्न1:- शब्द रूपाणि - बालक, बालिका, फल लिखो और याद करो ।

प्रश्न2:- धातु रूपाणि- पठ,गम,लिख, चल लटलकार सभी पुरुषों और सभी विभक्तियों में लिखें और याद करें ।

Subject:- Science

- Q1. Learn the poem on pagano-38.
- Q2. Prepare a model of Forest.
- Q3. Collects 10 forest products.
- Q4. Show different stages of germination in a bean seed on chart paper.
- Q5 Draw pictures of Elephant, frog, deer, owl, snake, bird, hen and cow.

Q1. To identifying the food habits of different animals and construct a food chain / web to show their inter-relationship.

Q2. Find out 5 different places where joints are present in your body. Observe the movement at each joint and identify the type of joints.

Q3. Prepare a model of grassland habitat.

Subject:- Social Science

- 1. Paste picture of nuclear and joint family.
- 2. On the political map of India indicate all the states and color them with different colors.
- 3. Write the name of all states and their capital.
- 4. Learn all answers of the questions. (Lesson - 1,2, & 3)
- 5. Read newspaper daily. (Paste 15 news headlines in the file).
- 6. Observe T. V. Programme. (Discovery ,National Geography and History Channel).

Subject:- Mathematics

Q.1: Write the successor of the following:

- (a) 48, 36,959 (b) 9, 99, 99,999 (c) 56, 09,999

Q.2: Write the predecessor of the following:

- (a) 56, 46, 000 (b) 10, 00,000 (c) 4, 84, 10,000

Q.3: Look carefully at the commas between periods and then write the number names for the following:

- (a) 35, 68, 046 (b) 104, 601, 843 (c) 3, 084, 001

Q.4: Fill in the blanks:

- (a) 1 million =lakhs
(b) 1 lakh =thousands
(c) 1 crore =millions
(d) 100 millions =crores

Q.5: Find the sum of the place values of two fives in 35, 46, 52, 983.

Q.6: Draw an Indian place value chart showing the periods and places of any 9-digit number.

Q.7: Draw an International place value chart showing the periods and places of any 9-digit number.

Q.8: Find the value of $5, 43, 86, 291 + 1, 09, 853 - 96, 298$

Q.9: Subtract $93, 84, 236$ from the sum of $3, 95, 08, 625$ and $74, 38, 906$.

Q.10: Find the product: $3, 847 \times 431$

Q.11: Find the quotient and remainder: $4,182 \div 13$

Q.12: Find the difference: $5, 73,284 - 3, 84,962$.

Q.13: Write the first four multiples of:

- (a) 7 (b) 13 (c) 11

Q.14: Write the multiples of 6 between 20 and 40.

Q.15: Write the multiples of 7 which are less than 40.

Q. 16: Write the definition of Even Numbers.

Q.17: Write the definition of Odd Numbers.

Q.18: Encircle the even numbers:

4 7 8 12 19 28 56 77

Q.19: Encircle the Odd numbers:

76 49 3 19 24 57 69

Q.20: Find the LCM

(a) 4 , 6 (b) 6 , 8 (c) 6 , 8 , 12

Q.21: Write all the factors of:

(a) 12 (b) 15 (c) 20

Q.22: Write the numerals using commas as per International System.

(a) Thirty four million two hundred three thousand five hundred one.

(b) Nine hundred million nine thousand nine.

Q.23: Write the numerals using commas as per Indian System of numeration.

(a) Six crore twenty thousand twenty.

(b) One crore thirty two lakh nineteen.

Q.24: Find the sum of greatest 5-digit and 4-digit numbers.

Q.25: Find the difference between smallest 6-digit and greatest 5-digit number